



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 35

25 दिसंबर, 2020

संख्या 52

1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां*

मद	2019		2020		घट - बढ़	
	20 दिसंबर		11 दिसंबर		सप्ताह	
	1	2	3	4	5	वर्ष
1 जारी नोट	2245900	2758420	2749870	-8550	503970	
1.1 संचलन में नोट	2245888	2758409	2749859	-8550	503971	
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	12	11	11	0	-1	
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	101	100	101	1	-	
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना						
2.3 राज्य सरकारें	42	43	42	-1	0	
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	562488	445715	488262	42547	-74226	
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6867	5262	5437	175	-1430	
2.6 अन्य बैंक	34347	29254	28476	-777	-5871	
2.7 अन्य	290189	980179	931707	-48472	641518	
3 अन्य देयताएं	1124290	1462455	1480676	18221	356386	
कुल देयताएं / आस्तियां	4264224	5681428	5684572	3144	1420348	
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3030135	3978966	3984553	5587	954418	
2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी	192925	265223	272328	7105	79403	
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1000832	1284457	1283889	-568	283057	
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	
4.2 राज्य सरकारें	1256	13017	6303	-6714	5048	
4.3 नाबार्ड	-	25833	26133	300	26133	
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	25746	77097	77098	1	51352	
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-	
4.8 अन्य	4744	27721	25069	-2652	20325	
5 खरीदे और भुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-	
5.2 खज़ाना	-	-	-	-	-	
6 निवेश	1964	1964	1964	0	-	
7 अन्य आस्तियां	6622	7150	7235	85	613	

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	18 दिसंबर 2020 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4274948	581131	13856	2563	672792	103324	1039931	126183
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3955679	537727	5536	1382	621864	95514	949756	114994
1.2 स्वर्ण	272327	37020	7105	1008	41800	6441	79402	9888
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11142	1515	72	12	342	82	885	72
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	35800	4870	1143	160	8787	1287	9888	1228

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

18 दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹440310 करोड़	2020													
	5 दिसंबर	6 दिसंबर	7 दिसंबर	8 दिसंबर	9 दिसंबर	10 दिसंबर	11 दिसंबर	12 दिसंबर	13 दिसंबर	14 दिसंबर	15 दिसंबर	16 दिसंबर	17 दिसंबर	18 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	437372	437045	435477	435509	436778	435779	445715	444758	444418	429615	431950	430278	433478	488262
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	99.3	99.3	98.9	98.9	99.2	99.0	101.2	101.0	100.9	97.6	98.1	97.7	98.4	110.9

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	4 दिसंबर 2020 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	205752	4378	8830	-28596	37368	20094
1.2 बैंकों से उधार	43869	3551	-20676	-20132	-15282	-14913
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	17243	758	-3279	1079	-1316	5382
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14591773	221339	532280	1024281	1221420	1485722
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.5	4.2	7.5	10.3	11.3
2.1.1 मांग	1600210	88694	-131301	-16793	179133	220224
2.1.2 मीयादी	12991563	132645	663581	1041074	1042288	1265498
2.2 उधारियां	252637	-11385	-49197	-56802	-12457	-76420
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	605096	-31513	17845	1420	53251	43605
3 रिज़र्व बैंक से उधार	77097	-37614	-165963	-208526	-75293	62372
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	562192	4089	-20300	-61254	73440	-58091
4.1 उपलब्ध नकदी	85443	-1173	5289	-1817	7637	5278
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	476750	5262	-25589	-59436	65803	-63368
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	153650	7776	-81061	-1751	-63578	11663
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7626	-1619	-16986	-12647	-14178	-7640
5.3 बैंकों को अग्रिम	21605	779	-4981	-8927	-6432	-3050
5.4 अन्य आस्तियां	28983	-1628	-8193	-25049	6733	-5702
6 निवेश	4489009	63684	379822	741659	309019	728130
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		1.4	11.2	19.8	9.0	19.4
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4487564	63710	371959	748868	300312	736603
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1445	-27	7863	-7208	8708	-8473
7 बैंक ऋण	10504536	69655	162961	133675	728431	569852
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.7	1.7	1.3	7.9	5.7
7 क.1 खाद्य ऋण	95913	6956	83054	44149	45219	-28751
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10408623	62699	79907	89527	683212	598604
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10335669	66594	209556	186160	737615	604119
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	22987	-930	-2072	-2671	4703	-1165
7 ख.3 भुनाए गए	99609	2539	-32695	-46074	-10097	-25992
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	17104	773	-2813	-3353	-827	-4670
7 ख.5 भुनाए गए	29167	679	-9015	-387	-2964	-2440

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2019	2020				
	20 दिसंबर	20 नवंबर	27 नवंबर	4 दिसंबर	11 दिसंबर	18 दिसंबर
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.50	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.95	3.88	..	3.85	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	76.47	72.61	..	71.99	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	40.23	7.97	..	13.05	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.63	30.79	..	30.76	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	79.41	84.44	..	72.41	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिर्वर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.45/9.40	7.40/8.80	7.40/8.80	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.65/8.00	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.60/7.10	6.55/7.10
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.20/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	5.06	3.13	3.10	3.07	3.12	3.20
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.01	2.98	2.93	3.05	3.11	3.13
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.19	3.34	3.26	3.32	3.35	3.35
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.27	3.42	3.39	3.39	3.45	3.45
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.81	5.92	5.84	5.83	5.91	5.92
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	71.16	74.16	73.80	73.74	73.59	73.51
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.11	88.15	88.02	89.64	89.47	90.03
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.88	3.32	3.36	3.58	3.47	3.55
3-माह	3.82	3.56	3.52	3.58	3.51	3.59
6-माह	4.33	4.18	4.23	4.33	4.24	4.38

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	4 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18161894	223955	1.2	732705	4.7	1361931	8.1	1566118	10.7	1997123	12.4
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2677774	4240	0.2	132336	6.4	328026	14.0	252767	13.1	493229	22.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1721751	88813	5.4	-125853	-7.7	-15941	-0.9	187112	14.2	221092	14.7
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13720491	130927	1.0	725606	6.2	1046475	8.3	1119258	9.9	1273282	10.2
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41879	-25	-0.1	617	1.9	3371	8.8	6981	27.5	9520	29.4
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5824949	133435	2.3	651162	14.8	864587	17.4	601438	13.6	785296	15.6
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1091996	68049		262417		99804		283152		27628	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4732953	65386	1.4	388745	10.8	764783	19.3	318286	8.7	757668	19.1
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11161537	69153	0.6	199555	1.9	122893	1.1	781325	8.0	579263	5.5
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	10876	-1297		-8469		-2290		-1940		3982	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11150661	70450	0.6	208024	2.0	125183	1.1	783265	8.0	575281	5.4
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4499773	5994	0.1	369819	12.0	698737	18.4	535920	18.4	1059114	30.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26541	-	-	291	1.1	193	0.7	392	1.5	362	1.4
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3350905	-15374	-0.5	488122	20.0	324479	10.7	352956	13.7	426913	14.6
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1467815	2871	0.2	74122	7.0	89473	6.5	57821	5.4	334898	29.6

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020		सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2019-20		2020-21		2019		2020	
	31 मार्च	18 दिसंबर	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3340442	32920	1.0	139266	5.0	310735	10.3	339142	13.2	430695	14.8
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2776477	-8550	-0.3	135296	6.3	329166	13.5	242097	11.9	504411	22.2
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमाराशि	543888	522176	41945	8.7	1733	0.3	-21712	-4.0	88139	17.1	-81526	-13.5
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	41788	-475	-1.1	2237	7.0	3281	8.5	8906	35.5	7810	23.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	980473	-133342		177970		-11719		296915		552	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	974212	-126629		178234		-15529		296226		-4495	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-455754	165835		-348946		-254861		-357850		-259659	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-466959	165783		-340285		-252900		-355271		-264162	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4267681	18553	0.4	374252	13.1	677279	18.9	472437	17.2	1044843	32.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26618			291	1.1	271	1.0	392	1.5	440	1.7
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1478577	18126	1.2	64301	6.1	100235	7.3	72752	6.9	355481	31.7

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएसओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4				8	9					
14 दिसंबर 2020	-	722898	-	-	10	-2001	-	-	-	-	-	-	-66	-724955
15 दिसंबर 2020	-	707651	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-522	-708147
16 दिसंबर 2020	-	603875	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-189	-604032
17 दिसंबर 2020	-	624914	-	-	21	2300	-	-	-	-	-	-	-550	-623143
18 दिसंबर 2020	-	570190	-	-	1	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-570189
19 दिसंबर 2020	-	26816	-	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-26692
20 दिसंबर 2020	-	1483	-	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-1275

* इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

** 'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019		2020		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	अक्तूबर	नवंबर	अक्तूबर	नवंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	147.2	148.6	158.4	158.9	0.3	6.9	6.9
1.1 ग्रामीण	148.3	149.9	159.8	160.7	0.6	7.3	7.2
1.2 शहरी	146.0	147.0	156.7	156.9	0.1	6.5	6.7
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	119.5	..	..	..	..
3 श्रोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	122.0	122.3	123.8	124.2	0.3	3.2	1.6
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	145.5	147.2	152.4	151.2	- 0.8	10.0	2.7
3.2 ईंधन और बिजली	102.3	101.3	91.1	91.3	0.2	- 8.2	- 9.9
3.3 विनिर्मित उत्पाद	117.8	117.8	120.3	121.3	0.8	2.3	3.0

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
20 नवंबर 2020	67680	792	3.35 - 4.54
4 दिसंबर 2020	69440	6299	3.08 - 4.63

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
30 नवंबर 2020	373146	64386	2.79 - 8.80
15 दिसंबर 2020	390613	102308	2.65 - 12.61

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	20 दिसंबर 2019	11 दिसंबर 2020	18 दिसंबर 2020
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	22788	13477	17573
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	7705	866	5251
3 सीबीएलओ#	413105	406200	529871
4 बाजार रेपो	270854	314587	366239
5 कॉर्पोरेट बांड में रेपो	98	304	2468

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

18 दिसंबर 2020 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	4
91-दिवसीय	2464	16791	85090	213050
182-दिवसीय	109976	35041	4273	223763
364-दिवसीय	146971	120465	12417	409817
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (18 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (20 दिसंबर 2019 तक)	2019-20	2020 - 21 (18 दिसंबर 2020 तक)	2019 - 20 (20 दिसंबर 2019 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1005000	602000	710000	824935	500972	473972
2. राज्य सरकारें	524991	367845	634521	430736	263910	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।